

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 641]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 26, शक 1940

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. 355-पीएसजी-आरएमपी-2018.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने श्री कमल नाथ को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और सोमवार दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 1.30 बजे उन्हें मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव.